



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 30—जुलाई 6, 2012 (आषाढ़ 9, 1934)
No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30—JULY 6, 2012 (ASADHA 9, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	509	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	623	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	3	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	917	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 1097
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 4933
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 555
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	509	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	623	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	917	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1097
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	4933
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	555
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the -Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक अप्रैल 2012

6. यह घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 4 में उल्लिखित शर्तों के अधधीन की जाती है।

आर. पी. सिसोदिया
संयुक्त सचिव

सं. एफ 10-07/2010-यू 3 ए--जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन श्री सत्य साईं आर्ट्स एवं साईंस कॉलेज फॉर वूमैन, अनंतपुर और श्री सत्य साईं आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, प्रसन्ति निलियम से युक्त "श्री सत्य साईं उच्चतर अध्ययन संस्थान" जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश को इस मंत्रालय की 10.11.1981 की अधिसूचना संख्या 9-11/81-यू-3 के तहत 'सम विश्वविद्यालय' घोषित किया गया था। बाद में श्री सत्य साईं कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साईंस और कॉमर्स, काडुगोडी वाईट फील्ड, बंगलौर को भी सरकार के पत्र संख्या 9-11/81-यू-3 दिनांक 14.09.82 के तहत 'सम विश्वविद्यालय' की परिधि में शामिल किया गया;

2. और जबकि सम-विश्वविद्यालय "श्री सत्य साईं उच्चतर अध्ययन संस्थान" से जनवरी, 2010 में मुड्डनहल्ली, जिला चिकबालापुर कर्नाटक में ऑफ-कैम्पस सेंटर प्रारंभ करने की अनुमति के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उपर्युक्त सम-विश्वविद्यालय के मुड्डनहल्ली जिला चिकबालापुर, कर्नाटक में ऑफ-कैम्पस प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव पर इस प्रयोजन के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से विचार किया है;

4. और जबकि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर यूजीसी ने श्री सत्य साईं उच्चतर अध्ययन संस्थान द्वारा मुड्डनहल्ली, जिला चिकबालापुर कर्नाटक में ऑफ कैम्पस शुरू करने की केन्द्र सरकार को सिफारिश कर दी है;

5. अब, केन्द्रीय सरकार, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त मामले में यूजीसी की सलाह पर श्री सत्य साईं उच्चतर अध्ययन संस्थान सम विश्वविद्यालय को मुड्डनहल्ली, जिला चिकबालापुर कर्नाटक में, ऑफ कैम्पस चलाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान करती है जो उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए तत्काल प्रभाव से उसकी अनुषंगी इकाई के रूप में संचालित और अनुरक्षित की जाएगी, बशर्ते उसकी 3 वर्ष तक वार्षिक समीक्षा और बाद में हर 5 वर्षों के बाद सामान्य शर्तों पर समीक्षा की जाए।

नई दिल्ली-110115, दिनांक 18 मई 2012

संकल्प

सं. 2-18/2011-नीति निर्धारण-I--शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए उच्चतम सलाहकार संस्था, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की स्थापना सर्वप्रथम 1920 में की गई थी तथा मितव्ययिता के उपाय के रूप में 1923 में इसे भंग कर दिया गया। 1935 में इसे पुनर्जीवित किया गया तथा 1994 तक यह अस्तित्व में रहा। विगत में केब की सलाह पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श एवं जांच के लिए इसने एक मंच प्रदान किया, तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए 12.12.2008 को केब का पुनर्गठन किया गया था और अब वह कार्यकाल समाप्त हो चुका है। देश में हो रहे महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास के मद्देनजर तथा शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे व्यापक सुधारों को ध्यान में रखते हुए भी वर्तमान समय में केब को विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए यह महत्वपूर्ण बात है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों, शिक्षाविदों तथा सभी विषय-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को आपसी बातचीत में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए तथा शिक्षा संबंधी निर्णय लेने के लिए सहभागितापूर्ण प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए जो हमारे शासन तंत्र के संघीय ढांचे का संवर्धन करता है।

2. तदनुसार भारत सरकार ने केब को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है, केब सदस्यों की सूची अनुबंध-I में दी गई है।

3. केब के कार्य निम्नलिखित होंगे :

- (क) समय-समय पर शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना;
- (ख) केन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मात्रा एवं ढंग का मूल्यांकन करना और इस मामले में उपयुक्त सलाह देना;
- (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षिक विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राज्य सरकारों एवं गैर सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के संबंध में सलाह देना;

(घ) किसी भी शैक्षिक प्रश्न पर स्वतः या केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर सलाह देना;

(ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करना।

(छ) सामान्य: सिर्फ प्रक्रियागत खामी या किसी भी श्रेणी के अंतर्गत पद रिक्ति के कारण बोर्ड की कोई भी कार्रवाई अवैध नहीं होगी।

अमित खरे
संयुक्त सचिव

4. इन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड

- (i) किसी भी सरकारी संस्था, किसी अन्य संगठन या व्यक्ति से सूचना एवं टिप्पणी की मांग कर सकता है;
- (ii) आवश्यकतानुसार अपने सदस्यों और/या अन्यो को शामिल करते हुए समिति या समूह गठित कर सकता है, और
- (iii) सरकार या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से ऐसे किसी भी मुद्दे पर अध्ययन अनुसंधान या रिपोर्ट अधिष्ठापित कर सकता है जिस पर बोर्ड या इसकी समिति अथवा समूह द्वारा ध्यान दिया जाना हो।

5. (क) कार्यकाल :

इस अधिसूचना की तारीख से केब का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(ख) आकस्मिक रिक्तियां :

- (i) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों के बीच सभी आकस्मिक रिक्तियों को उस प्राधिकारी या संस्था द्वारा भरा जाएगा जिसने उस सदस्य को मनोनीत किया होगा अथवा चुना होगा जिसका पद रिक्त होगा।
- (ii) आकस्मिक रिक्ति पर मनोनीत या चयनित व्यक्ति बोर्ड का उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा जिस अवधि के लिए वह व्यक्ति सदस्य रहता है, जिसके स्थान पर उसे चुना गया है।

(ग) बैठक :

- (i) बोर्ड की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी तथा बोर्ड की दो क्रमिक बैठकों में दो वर्ष से अधिक का अंतर नहीं होगा।

(घ) कार्यसूची:

- (i) कार्यसूची, व्याख्यात्मक ज्ञापन और कार्यवाही/कार्यवृत्त का रिकार्ड मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), भारत सरकार द्वारा तैयार एवं परिचालित किया जाएगा।
- (ii) कार्यसूची एवं व्याख्यात्मक ज्ञापन सामान्यतया सभी सदस्यों को बोर्ड की बैठक से कम से कम 10 दिन पहले परिचालित किए जाएंगे।

(ङ) कोरम : बोर्ड की बैठक का कोरम इसकी कुल सदस्यता का 2/3 होगा।

(च) कार्यविधि : जिन मामलों का ऊपर प्रावधान नहीं है उनके मामले में बोर्ड अपनी स्वयं की कार्यविधि अपनाएगा।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की संरचना

1. अध्यक्ष
मानव संसाधन विकास मंत्री
2. उपाध्यक्ष
 - (i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
 - (ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
3. भारत सरकार के प्रतिनिधि
 - i. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री
 - ii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
 - iii. सूचना और प्रसारण मंत्री
 - iv. श्रम एवं रोजगार मंत्री
 - v. संस्कृति मंत्री
 - vi. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
 - vii. विधि एवं न्याय मंत्री
 - viii. अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
 - ix. जनजातीय कार्य मंत्री
 - x. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), महिला एवं बाल विकास
 - xi. युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
 - xii. सदस्य (शिक्षा), योजना आयोग

4. राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के प्रतिनिधि

- i. मुख्यमंत्री द्वारा नामित प्रत्येक राज्य सरकार में शिक्षा के प्रभारी एक मंत्री
- ii. प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में उप राज्यपाल अथवा शिक्षा के प्रभारी मंत्री

5. संसद (लोक सभा/राज्य सभा) द्वारा चयनित सदस्य

- i. लोक सभा से चार संसद सदस्य
- ii. राज्य सभा से दो संसद सदस्य

6. पदेन सदस्य

- i. सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

अनुबंध-I

- ii. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
 - iii. सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 - iv. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
 - v. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
 - vi. अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्
 - vii. अध्यक्ष, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्
 - viii. अध्यक्ष, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्
 - ix. अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद्
 - x. अध्यक्ष, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्
 - xi. अध्यक्ष, भारतीय औषधीय केन्द्रीय परिषद्
 - xii. अध्यक्ष, वास्तुकला परिषद्
 - xiii. अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
 - xiv. निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
 - xv. अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
 - xvi. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ
 - xvii. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
 - xviii. अध्यक्ष, दूरस्थ शिक्षा परिषद्
 - xix. अध्यक्ष, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
 - xx. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
 - xxi. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी
 - xxii. अध्यक्ष, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी
 - xxiii. अध्यक्ष, भारतीय अभियंता संस्थान
7. विश्वविद्यालयों के कुलपति/राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के अध्यक्ष
- i. प्रो. दिनेश सिंह, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय
 - ii. प्रो. अभिजीत चक्रवर्ती, कुलपति, जाधवपुर विश्वविद्यालय
 - iii. प्रो. डब्ल्यू. एन. गडे, कुलपति, पुणे विश्वविद्यालय
 - iv. प्रो. ए. एन. राय, कुलपति, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय
 - v. डॉ. कल्याणी मथीवनन, कुलपति, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय
 - vi. प्रो. ए. एस. बरार, कुलपति, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय
 - vii. प्रो. देवांग खखड, निदेशक, आईआईटी, बॉम्बे
 - viii. प्रो. पी. बलराम, निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
 - ix. प्रो. बिमल के. राय, निदेशक, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता
 - x. प्रो. आर. गोविन्दा, कुलपति, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय

8. नामित सदस्य भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि

(क) उद्योग जगत का प्रतिनिधित्व करने और शिक्षा में रुचि रखने वाले चार व्यक्ति

- i. श्री राजेन्द्र एस. पवार, अध्यक्ष, एनआईआईटी
- ii. श्री शिव नाडार, मुख्य प्रबंध निदेशक, एचसीएल प्रौद्योगिकी
- iii. श्री अनलजीत सिंह, संस्थापक एवं अध्यक्ष, मैक्स
- iv. डॉ. एस. रामदोई, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् में प्रधानमंत्री के सलाहकार

(ख) छह प्रतिष्ठित अकादमीशियन/टेक्नॉलाजिस्ट/वैज्ञानिक

- i. प्रो. गोवर्धन मेहता, प्रोफेसर हैदराबाद विश्वविद्यालय
- ii. प्रो. माधव गाड़गिल, प्रोफेसर आईआईएससी, बंगलौर
- iii. डॉ. रामचन्द्र गुहा, प्रतिष्ठित इतिहासकार
- iv. प्रो. यू.आर. अनंतमूर्ति, लेखक

(ग) विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सात व्यक्ति

- i. प्रो. सुखदेव, थोराट (अपनी हैसियत से), यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष और आईसीएसएसआर के वर्तमान अध्यक्ष
- ii. प्रो. डेविड आर. स्पीमलीह, कुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोंयमुख, अरुणाचल प्रदेश
- iii. डॉ. मेरी ई. जोहन, वरिष्ठ अध्येता, महिला विकास अध्ययन केन्द्र
- iv. डॉ. मिथु अलूर, संस्थापक अध्यक्ष, भारतीय स्पास्टिक सोसायटी (एडीएपीटी)
- v. प्रो. एस पी. सिंह, पूर्व कुलपति, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय
- vi. सुश्री तीस्ता सीतलवाड, सामाजिक कार्यकर्ता
- vii. सुश्री शबनम हाशमी, सामाजिक कार्यकर्ता

(घ) स्कूल शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच नामिति

- i. श्री अरुण कुमार, निदेशक, वसंत वैली फाउंडेशन
- ii. श्री ओम प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, उ. प्र. माध्यमिक शिक्षा संस्थान
- iii. श्रीमती अदिति जैन अनिल, अध्यक्ष, प्रज्ञावर्तन एजुकेशन सोसायटी एवं गैया स्कूल
- iv. डॉ. रुक्मिणी बनर्जी, प्रथम
- v. डॉ. विनोद रैना, शिक्षाविद

(ङ) रचनात्मक कला के दो नामिति प्रतिनिधि

- i. श्री श्याम बेनेगल, फिल्म निर्देशक

(च) अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों का एक नामित प्रतिनिधि

- i. श्री पी. ए. इनामदार, शिक्षाविद

(छ) विभिन्न भाषाओं के चार नामिति प्रतिनिधि

- i. प्रो. वसीम बरेलवी - उपाध्यक्ष, एनसीपीयूएल उर्दू
- ii. डॉ. वी. सी. कुलनदाई स्वामी - तमिल
- iii. श्री गोपालदास नीरज - हिन्दी
- iv. श्री सत्यव्रत शास्त्री - संस्कृत

9. मीडिया के प्रतिनिधि

- i. श्री विनोद दुआ, एनडीटीवी
- i. श्री एम. के. राजदान, पीटीआई

10. सदस्य सचिव

सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

11. स्थायी आमंत्रिणी

- i. सचिव, योजना आयोग

ii. सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग तथा आईसीएआर के महानिदेशक

iii. सचिव, संस्कृति मंत्रालय

iv. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

v. सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

vi. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

vii. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

viii. सचिव, खेल विभाग

ix. सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय

x. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

xi. सचिव, युवा कार्य विभाग

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-1, the April 2012

No. F. 10-7/2010-U3A—Whereas the "Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning", Anantapur District, Andhra Pradesh was declared a 'Deemed to be University' comprising of Sri Sathya Sai Arts and Science College for Women, Anantapur and Sri Sathya Sai Arts, Science and Commerce College, Prasanthiniliyam, under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's Notification No. 9-11/81-U.3 dated 10.11.1981. Later on, Sri Sathya Sai College of Arts, Science and Commerce, Kadugodi, Whitefield, Bangalore was also included under the ambit of the deemed to be University vide Governments' letter No. F. 9-11/81-U.3 dated 14.09.1982.

2. And whereas, a proposal was received from "Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning", Deemed to be University in January, 2010, seeking permission to start an off-campus centre at Muddenhalli, Chikaballapur District, Karnataka;

3. And whereas, the University Grants Commission (UGC) has considered the proposal of the aforesaid Deemed to be University for starting of off-campus at Muddenhalli, Chikaballapur District, Karnataka the Deemed to be University through an Expert Committee constituted for this purpose;

4. And whereas, on the basis of the report and recommendations of the Expert Committee, the UGC has recommended to the Central Government the starting of off-campus at Muddenhalli, Chikaballapur District, Karnataka by Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning;

5. Now, the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, and on the advice of the UGC in the aforesaid matter, do hereby allow starting of the off-campus at Muddenhalli, Chikaballapur District, Karnataka by the Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning Deemed to be University to be operated and maintained as its constituent unit for the purpose of the aforesaid Act, with immediate effect, subject to annual review for 3 years and subsequently review after every 5 years, subject to usual conditions.

6. The declaration is subject to the conditions mentioned at S. No. 4 of the endorsement of this notification.

R. P. SISODIA
Jt. Secy.

New Delhi-110115, the 18th May 2012

RESOLUTION

No. 2-18/2011-PN-I—The Central Advisory Board of Education (CABE), the highest advisory body to advise the Central and State Governments in the field of education, was first established in 1920. It was dissolved in 1923 as a measure of economy and was again revived in 1935. It continued to be in existence till 1994. Since important

decisions have been taken on the advice of CABE and it has provided a forum for widespread consultation and examination of issues relating to educational and cultural development, CABE was reconstituted on 12.12.2008 for tenure of three years and the said tenure has since expired. CABE has an important role to play in the present times, particularly in view of the significant socio-economic and socio-cultural developments taking place in the country as also the wide ranging reforms taking place in the education sector. It is, therefore, desirable that the Central and State Governments, educationists, and people representing different interests should evolve a participative process of decision making in education which enhances the federal structure of our polity.

2. The Government of India has accordingly decided to reconstitute CABE. A list of members of CABE is placed at Annexure-I.

3. The functions of CABE shall be :

- (a) To review the progress of education from time to time;
- (b) To appraise the extent and manner in which the National Policy on Education has been implemented by the Central and State Governments, and other concerned agencies, and to give appropriate advice in the matter;
- (c) To advise regarding coordination between the Central and State Governments/UT Administrations, State Governments and Non-Governmental Agencies for development of education in accordance with the National Policy on Education
- (d) To advise suo-moto, or on a reference made to it by the Central Government or any State Government or a Union Territory Administration on any Educational Question.
- (e) To review the National Policy on Education.

4. For the discharge of these functions, the Board may

- (i) Call for information and comments from any government institution, any other organization or an individual;
- (ii) Appoint committees or groups comprising members of CABE and/or others as may be necessary; and
- (iii) Commission through Government or any other agency, studies, research or reports on any specific issue requiring the attention of the Board or its Committees or groups.

5. (a) TENURE :

The tenure of CABE shall be three years, with effect from the date of Notification of this Resolution.

(b) CASUAL VACANCIES :

- (i) All casual vacancies among the members, other than ex-officio members shall be filled by the Authority or body which nominated or elected the members whose place falls vacant.
- (ii) The person nominated or elected to a casual vacancy shall be a member of the Board for the residue of the term for which the member whose place he fills would have been a member.

(c) MEETING :

- (i) The Board shall meet at least twice every year and there shall not be a gap or more than one year between two consecutive meetings of the Board.

(d) AGENDA :

- (i) The Agenda, the explanatory memorandum and the Record of Proceedings/Minutes of the meeting shall be prepared and circulated by the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education), Government of India.
- (ii) The Agenda and the explanatory memorandum will ordinarily be circulated to all the members at least 10 days before the date of the Meeting of the Board.
- (e) QUORUM : The quorum of the meeting of the Board shall be 2/3rd of the total membership of the Board.
- (f) PROCEDURE : The Board will adopt its own procedures in respect of matters not provided for above.
- (g) GENERAL : No proceedings of the Board shall be invalid merely on the ground of procedural defect or vacancy under any category of membership.

AMIT KHARE
Jt. Secy.

ANNEXURE-I

Composition of the Central Advisory Board of Education

1. Chairperson

1. Minister of Human Resource Development.

2. Vice-Chairpersons

- i. Minister of State for Human Resource Development
- ii. Minister of State for Human Resource Development

3. Representatives of the Government of India

- i. Minister of Science and Technology

- ii. Minister of Health and Family Welfare

- iii. Minister of Information and Broadcasting

- iv. Minister of Labour and Employment

- v. Minister of Culture

- vi. Minister of Social Justice and Empowerment

- vii. Minister of Law & Justice

- viii. Minister of Minority Affairs

- ix. Minister of Tribal Affairs

- x. Minister of State (Independent Charge), for Women & Child Development

- xi. Minister of State (Independent Charge) for Youth Affairs and Sports

- xii. Member (Education), Planning Commission

4. Representatives of State Governments and UT Administrations

- i. One Minister-in-charge of Education of each State Government to be nominated by the Chief Minister

- ii. Lt. Governor or Minister in charge of Education in each UT Administration

5. Representative Elected by Parliament (Lok Sabha/Rajya Sabha)

- i. Four members of Parliament from the Lok Sabha

- ii. Two member of Parliament from the Rajya Sabha

6. Ex-officio Members

- i. Secretary, Department of School Education and Literacy, MHRD

- ii. Secretary, Department of Science & Technology

- iii. Secretary, Department of Bio-technology

- iv. Chairman, University Grants Commission

- v. Chairman, All India Council for Technical Education

- vi. Chairman, Indian Council for Social Science Research

- vii. Chairman, Indian Council for Historical Research.

- viii. Chairman, Indian Council for Philosophical Research

- ix. Chairman, Medical Council of India

- x. Chairman, Dental Council of India

- xi. Chairman, Central Council of India Medicine

- xii. Chairman, Council of Architecture

- xiii. Chairman, Central Social Welfare Board
- xiv. Director, National Council for Educational, Research and Training
- xv. Chairman, Central Board of Secondary Education
- xvi. Secretary-General, Association of Indian Universities
- xvii. Chairman, National Council for Teacher Education
- xviii. Chairman, Distance Education Council
- xix. Chairman, National Skill Development Corporation
- xx. Chairperson, National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)
- xxi. President, Indian National Science Academy
- xxii. President, National Academy of Sciences
- xxiii. President, Indian Institute of Engineers

7. Vice Chancellors of Universities/Heads of Institutions of National Importance

- i. Prof. Dinesh Singh, Vice Chancellor, University of Delhi
- ii. Prof. Abijit Chakrabarti, Vice Chancellor, Jadavpur University
- iii. Prof. W.N. Gade, Vice Chancellor, Pune University
- iv. Prof. A. N. Rai, Vice Chancellor, North-Eastern Hill University
- v. Dr. Kalyani Mathivanan, Vice Chancellor, Madurai Kamaraj University
- vi. Prof. A. S. Brar, Vice Chancellor, Guru Nanak Dev University
- vii. Prof. Devang, Khakhar Director, IIT, Bombay
- viii. Prof. P. Balaram Director, Indian Institute of Science, Bangalore
- ix. Prof. Bimal K. Roy, Director, Indian Statistical Institute, Kolkata
- x. Prof. R. Govinda, Vice Chancellor, National University of Educational Planning and Administration. Nominated Members representing different interests

8. Nominated Members representing different interests

- (a) Four persons representing industry with interest in education
 - i. Shri Rajendra S. Pawar, Chairman, NIIT
 - ii. Shri Shiv Nadar, CMD. HCL Technologies
 - iii. Shri Analjit Singh, Founder & Chairman, MAX
 - iv. Dr. S. Ramadorai, Advisor to PM on National Council for Skill Development

(b) Six eminent Academicians/Technologists/Scientists

- i. Prof. Govardhan Mehta, Professor University of Hyderabad
- ii. Prof. Madhav Gadgil, Professor, IISc, Bangalore
- iii. Dr. Ramachandra Guha, Eminent Historian
- iv. Prof. U. R. Ananthamurthy, Writer

(c) Seven persons representing special interests

- i. Prof. Sukhadeo, Thorat (in his own capacity), Former Chairman UGC and presently Chairman, ICSSR
- ii. Prof. David R. Syiemlieh, VC, Rajiv Gandhi University, Doimukh, Arunachal Pradesh
- iii. Dr. Mary, E. John, Senior Fellow, Centre for Women's Development Studies
- iv. Dr. Mithu Alur, Founder Chairperson, Spastics Society of India (ADAPT)
- v. Prof. S. P. Singh, Former VC, Guru Nanak Dev University
- vi. Ms. Teesta Setalvad, Social Activist
- vii. Ms. Shabnam Hashmi, Social Activist

(d) Five nominees representing School Education

- i. Shri Arun Kapur, Director Vasant Valley Foundation
- ii. Shri Om Prakash Sharma, President U.P. Madhyamik Shiksha Sansthan
- iii. Smt. Aditi Jain Anil, Chairperson Pragyavataran Educational Society and Gaia Schools
- iv. Dr. Rukmini Banerjee, Pratham
- v. Dr. Vonod Raina, Educationist

(e) Two nominees representing Creative Arts

- i. Shri Shyam Benegal, Film Director

(f) One nominee representing Minority Educational Institutions

- i. Shri P. A. Inamdar, Educationist

(g) Four nominees representing different Languages

- i. Prof. Wasim Barelvi-Vice Chairman NCPUL Urdu
- ii. Dr. V. C. Kulandai Swamy-Tamil
- iii. Shri Gopaldas Neeraj-Hindi
- iv. Shri Satyavrat Shastri-Sanskrit

9. Media Representatives.

- i. Shri Vinod Dua, NDTV
- ii. Shri M.K. Razdan, PTI

10. Member Secretary

Secretary, Department of Higher Education, MHRD

11. Permanent Invitees

- i. Secretary, Planning Commission
- ii. Secretary, Department of Agricultural Research and Education and DG (ICAR)
- iii. Secretary, Ministry of Culture

iv. Secretary, Ministry of Environment & Forests

v. Secretary, Department of Electronics and Information Technology

vi. Secretary, Ministry of Labour and Employment

vii. Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment

viii. Secretary, Department of Sports

ix. Secretary, Ministry of Tribal Affairs

x. Secretary, Ministry of Women and Child Development

xi. Secretary, Department of Youth Affairs

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012